



## Start ops from disaster recovery site within 45 minutes of glitch, Sebi tells MIIs

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, March 22

**COMING OUT WITH** fresh guidelines, Sebi on Monday asked market infrastructure institutions (MIIs) to begin operations from disaster recovery sites within 45 minutes of a disruption to critical systems, including trading.

The directive comes against the backdrop of a technical glitch at the National Stock

Exchange (NSE) on February 24 that halted trading for nearly four hours.

Sebi said with advancement in technology and improved automation of processes, it was felt that the extant framework needs to be re-examined with a view to reducing the time period specified for moving from primary data centre to disaster recovery site.

The watchdog has come out with a new framework for

### 'Telecom links failure led to outage; steps being taken to address issues'

**THE NATIONAL STOCK** Exchange (NSE) on Monday said failure of telecom links as well as that of storage area network system led to the outage at the bourse last month. In a detailed statement, the bourse said various measures have been taken and others are under implementation to address the issues. Between primary and NDR (near disaster recovery) sites, the NSE said it has multiple telecom links with two service providers to ensure redundancy.

PTI

business continuity plan (BCP) and disaster recovery (DR) of MIIs – stock exchanges, clearing corporations and depositories. In the event of disruption of any one or more of the 'critical systems', the MII would, within 30 minutes of the incident, declare that incident as 'disaster' and take measures to restore operations, including from DRS, within 45 minutes of the declaration of 'disaster', Sebi said.

The new guidelines should be implemented within 90 days, Sebi said.

Critical systems for an exchange or clearing corporation would include trading, risk management, collateral management, clearing and settlement and index computation, while critical systems for a depository shall include systems supporting settlement process and inter-depository transfer system.



Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi- 110066  
CIN: L74999DL2003GOI118633, Email: investors@rvnl.org  
Phone : 011-26738299, Fax : 011-26182967

#### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 26th March, 2021**, inter alia, to consider and approve the Interim Dividend for the financial year 2020-21, if any. For the purpose of payment of Interim Dividend, if so, approved by the Board, the 'RECORD DATE' would be **09th April, 2021 (Friday)**. Pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window shall remain closed from **23rd March, 2021 (Tuesday)** to **28th March, 2021 (Sunday)**. This information is also available on website of the Company at [www.rvnl.org](http://www.rvnl.org) and website of stock exchanges where the shares of the Company are listed at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Place: New Delhi  
Date: 22.03.2021

For Rail Vikas Nigam Limited  
Sd/-  
Kalpana Dubey  
Company Secretary & Compliance Officer

# Is your opinion yours?

Your opinion should belong to you.

A voice that is your own.

Undeterred. Uncompromised. And brave.

A conscience that isn't at peace,  
until the truth is uncovered.

A mind that isn't fuelled by  
someone else's thoughts.

Where actions are based on informed opinions  
and not ignorant assumptions.

Because it's not about going where everyone goes.

Or being part of a trend because it is one.

Or taking sides because you don't know enough.

It's about freedom.

The freedom to have an opinion that's yours.

At Indian Express, we stand by this freedom.

We celebrate it by being unbiased and independent.

And by having a voice that isn't afraid to speak its mind.

#InformYourOpinion

*The Indian Express.*

*For the Indian Intelligent.*



indianexpress.com

 **The Indian EXPRESS**  
— JOURNALISM OF COURAGE —

विदेशों में कोरोना के मामलों को नजरंदाज नहीं कर सकते : ब्रिटेन लंदन, 22 मार्च। ब्रिटेन ने नागरिकों को दूसरे देशों में जाकर छुट्टियां मनाने के विरुद्ध चेतावनी दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालिस ने कहा कि यदि यात्रा योजनाओं पर कड़ाई से नियंत्रण नहीं लगाया गया तो यात्रियों द्वारा घातक विषाणु को संचारित कर सकते हैं।

<b>विश्व विकास निधि लिमिटेड</b> <div> <div> <p> </p> </div> </div>	
<span></span>	<span></span>
<b>सूचना</b>	पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : प्रभास तल्ल, उत्तर कर्मचारी भवन, भीकानी कला पोल, ओ. ए. रोड, नई दिल्ली, वित्तिय दिक्की-110068, फोन नं. ० 11-26738299, वीआईडीएन <span> </span> : एएन499939(आर०2003)बी०आर०118833
	ई-मेल <span> </span> : investors@vnfi.org, वेबसा <span> </span> : 011-28182657

एतद्द्वारा सूची (सूचीबन्ध दायित्व एवं प्रकारिकरण अध्याए) विनियामकवली, 2014 (‘सूचीबन्ध विनियामकवली’) के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसारमें सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **सूक्रवार, 26 मार्च, 2021** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अंतरिम लाभान, यदि कोई, पर विचार, अनुमोदन करने का कार्य विचारित किया जाएगा।

अंतरिम लाभाना, यदि कोई होना अनुमतिहित किया गया, के पुनर्मान के प्रयोजन हेतु **रेकार्ड तिथि 9 अप्रैल, 21 (शुक्रवार)** द्वारा।
“परामर्शित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा टैडिंग के निवेशक तथा प्रिविडेंट के लिए आरक्षीकरण आभार संचिटात के अनुसार में टैडिंग तिन्की 23 मार्च, 2021 (मंगलवार) से 28 मार्च, 2021 (रविवार) तक बंद रहेगी।”

**www सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnfi.org** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है।

**स्थान : नई दिल्ली**
**तिथि : 22-03-2021**

कम्पनी सचिव एवं अनुरालत अधिकारी

#### प्रप्रउ आइएनसी-26

**[ कंणी (निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 30 के अनुरालत में ]**
**केंद्र सरका/ क्षत्रीय निदेशक, उतरी क्षे्र, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली के समक्ष**

**कंणी अधिनियम, 2013, कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंणी (निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 30 (5) (ए) के मामले में**

**तथा**

**मामले में**

**सिरसा फेल्ड्स प्रालि, जिसका पंजीकृत कार्यालय है: डी 5/32, सेक्टर-7, डिवीयाडिंग रोड, सेक्टर 7 एवं 8, नई दिल्ली- 110085**

**CIN No. U17297DL1997PTC084473,**

**ईमेल आईडी- manojbansal25@gmail.com,**

**फोन नं. 9729400076**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि “रा.र. फेल्ड्स दिल्ली” से “हरियाणा राज्य” में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंणी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 21 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंणी ने मेमोरैंडम ऑफ एंसायरिशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंणी केंद्र सरकार के पास आवदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंणी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंणी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र, वी-2 विंग, 23रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें अथवा rd.north@mca.gov.in पर ईमेल द्वारा भेजें।

**डी 5/32, सेक्टर-7, डिवीयाडिंग रोड, सेक्टर 7 एवं 8, नई दिल्ली- 110085**
**आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से**

**सिरसा फेल्ड्स प्रालि,**
**हस्ता./- निदेशक**
**मनोज बंसल DIN: 00471083**
**पता: एच.नं. 93-ए, सी-ब्लॉक, सिरसा (हरियाणा)**

**ए एफ एटएप्र्राइजेज लिमिटेड**

CIN:L18100DL1983PLC016354

पंजीकृत कार्यालय: 334, डीएलए टावर, रिश्वाजी बाग, नरकनाथ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110019

Tel/Fax: 011-45084850 Email: info@ridh.in Website: www.ridh.in

**सूचना**

एतद्द्वारा कम्पनी (पंचथ तथा प्रशासन) निगमावली, 2014 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों ( यदि कोई हो) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में शेयरधारक ( यदि) तथा सभी संबंधित सत्ताओं/प्रधिकरणों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने निम्न प्रस्तावों को पारित करने के लिये 19 फरवरी, 2021 से 20 मार्च, 2021 तक पोस्टल वोटिंग (ई वोटिंग सहित) संर्वालित की थी, पर्यवेक्षक के रिपोर्ट तिथि के आधार पर पोस्टल वोटिंग परिणामों को इस प्रकार से घोषणा की जाती है।

<b>सूचना का मद सं</b>	<b>प्रस्ताव का विवरण तथा प्रकार</b>	<b>मतदाताओं की सं.</b>	<b>कुल मतों की सं.</b>	<b>कुल मतों के कुल प्रतिशत की सं.</b>	<b>विरोध में किये गये कुल मतों की सं.</b>
मद सं.	पोस्टल वोटिंग सूचना तिथि 23 नवम्बर 2020 में प्रस्ताव सं. 2 में वर्णित मतल उद्घाटन का सूचना	57	51	309/107	231

उक्त सभी प्रस्ताव वांछित बहुमत से पारित किये गये हैं।

इस पोस्टल वोटिंग परिणाम की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है तथा साथ ही उसे पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाईट **www.ridh.in** पर भी पोस्ट किया गया है।

यह पत्र: सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक 24 मार्च, 2021 को 4.00 बजे अप. में प्लांट नं. 8, सेक्टर-5, मधुरा रोड, बल्लभगढ़, फनीदाबाद-121006 में कम्पनी के फेक्टरी कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

**बाँट के आदेश से**

**ए एफ एटएप्र्राइजेज लिमिटेड के लिये**

**संतोत्र कुमार कुशवाहा**
**(निदेशक**
**DIN:02994228**

**रीअल ग्रॉथ कॉमर्सियल एण्टेप्राइजेज लिमिटेड**

CIN - L70190DL1995PLC064254

पंजी. कार्या.: जी-01, पू. तल, प्लांट नं. एण्टेप, एक्सप्रेसी वी-वॉल्ट, ऑप जी सिटी सेक्टर लॉक्स रोड, दिल्ली-110035, Website: www.realgrowth.co.in, Email:rgcel1995@gmail.com

**सूचना**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबन्ध दायित्व एवं उद्घाटन अधिका) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक रविवार, 28 मार्च, 2021 को विडियो कॉन्फेंसिंग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन कर उसे अंतिमलेख में लिये जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट **www.realgrowth.co.in** तथा बायमे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

**निदेशक मंडल के आदेश से**

**रीअल ग्रॉथ कॉमर्सियल एण्टेप्राइजेज लिमिटेड के लिये**

**हस्ता./- (टीपक गुणा**

**पूर्ण-कालिक निदेशक**

**DIN - 01890274**

## नियुक्तियां



### मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

शुद्धत: सविदा आधार पर (समेकित पारिश्रमिक ₹ 40,000/- प्रति माह)

**कनिष्ठ योजनाकार** के दो पदों की नियुक्ति हेतु प्राप्त भारतीय राष्ट्रिकों से आवेदन मांगावाये जाते हैं।

पात्रता निकष, अनुभव आदि विस्तृत विवरण हेतु इच्छुक उम्मीदवार हमारी वेबसाइट **www.mumbaiport.gov.in (Media / Vacancy)** को भेंट देकर हमारी वेबसाईट से निर्धारित फॉर्मट में आवेदन को डाउनलोड करके अपन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन हटमें प्राप्त होने की अंतिम तिथि 12/04/2021 होगी। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

MBPT-16-2021

**सचिव**



### विज्ञापन संख्या-29-2021

**भारत सरकार**  
लोक उद्यम चयन बोर्ड

## वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

में

## निदेशक ( वित्त )

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

### 27 मई, 2021 (15.00 बजे तक) है।

जानकारी के लिए वेबसाइट

**http://www.psn.gov.in**

में लॉग इन करें।

## इ्यू ने चार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया

**ब्रूसेल्स, 22 मार्च।** यूरोपीय संघ ने उडगर मुसलमानों के उल्पीइन को लेकर चीन के चार अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों की जद में आए चारों अधिकारी चीन के शिनजियांग प्रांत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में तैनात हैं। प्रतिबंधों में इन अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने और यूरोपीय संघ की यात्रा करने पर रोक शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के नगरिकों और कंपनियों की ओर से इन अधिकारियों को किसी तरह को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। (एपी)

प्रप्रउ सं. आइएनसी-26

**[ कंणी (निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 30 के अनुरालत में ]**
**केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उतरी क्षे्र, नई दिल्ली के समक्ष**

**कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंणी (निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 30 के उप-निगम 5 (5) के मामले में**

**तथा**

**कॉर्पोरेशन-पन्-जू टीेलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 4314/5, चय नता माण्ड, विहार, नई दिल्ली-110035, भारत में है, के मामले में

.....आवेदक कम्पनी एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंणी को सक्षम बनाने के लिए 19.3.2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एंसायरिशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंणी केंद्र सरकार के पास आवदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंणी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने हो, वे एप्रैल-21 घंटेन (www.mca.gov.in) पर निवेशक विभागत प्रपरा दखित करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंणी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र, कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय के पते: वी-2 विंग, 23रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: **पंजीकृत कार्यालय 21वीं तल, आठवाली कॉर्पोरेशन कॉम्प्लैक्स अलकानंदा, नई दिल्ली-110019, भारत**

**कृते एवं के लिए**
**कांविन चयन (ईंआए) प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**मनोज कुमार गौयल, निदेशक**
**तिथि: 21.03.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

**कॉर्पोरेशन-पन्-जू टीेलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**मनोज कुमार गौयल, निदेशक**
**तिथि: 21.03.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

कृते एवं के लिए

**कॉर्पोरेशन-पन्-जू टीेलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**मनोज कुमार गौयल, निदेशक**
**तिथि: 21.03.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

**पंजीकृत कार्यालय: 4314/5, चय नता माण्ड, विहार, नई दिल्ली-110035, भारत**

प्रप्रउ सं. आइएनसी- 25 ए (कम्पनी निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 41 के अनुरालत में) परिवर्तन का विज्ञापन
उत्तम सुक्रोकेट लिमिटेड का उत्तम सुक्रोकेट प्राइवेट लिमिटेड (पब्लिक कम्पनी का प्राइवेट कम्पनी के रूप में परिवर्तन)
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेंट मंत्रालय, उततरी क्षे्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंणी (निगमावली, 2014 के निगम 41 के तहत आवदन के विषय में)
तथा
उत्तम सुक्रोकेट लिमिटेड (सीआईएन - U29221UP1981PLC005493) के निषय में जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-42, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाडियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201003 में स्थित है।
.....आवेदक एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित दी जाती है कि कम्पनी, उत्तम सुक्रोकेट लिमिटेड (सीआईएन- U29221UP1981PLC005493) इन्को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (उत्तम सुक्रोकेट प्राइवेट लिमिटेड) में परिवर्तित करने के संबन्ध में सोमवार, 15 मार्च, 2021 को आयोजित असाधारण वार्षिक सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निष्पत्तीन के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उक्त नियमों के अन्तर्गत एक आवेदन केन्द्र सरकार (सहित) क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यर्पित) के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की इतिहास से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के उभरवा तथा विधिष के आधार के उल्लेखनीयता समुपपन्न द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेंट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को वी-2 विंग, वित्तीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उती क्षेत्र, कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय के पते: वी-2 विंग, 23रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय: 21वीं तल, आठवाली कॉम्प्लैक्स अलकानंदा, नई दिल्ली-110019, भारत
कृते एवं हिते उत्तम सुक्रोकेट लिमिटेड
हस्ता./-
हरनंद राायी
निदेशक
डिन:01972082

प्रप्रउ सं. आइएनसी-26 [कंणी (निगमन) निगमावली, 2014 के निगम 30 के अनुरालत में]
एक नमने से दूरतू नमने में पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये सभागत पते में
केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षे्र, नई दिल्ली के समक्ष)
कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंणी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंणी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने हो, वे एप्रैल-21 घंटेन (www.mca.gov.in) पर निवेशक विभागत प्रपरा दखित करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंणी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र, कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय के पते: वी-2 विंग, 23रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय: 21वीं तल, आठवाली कॉम्प्लैक्स अलकानंदा, नई दिल्ली-110019, भारत
कृते एवं हिते उत्तम सुक्रोकेट लिमिटेड
हस्ता./-
हरनंद राायी
निदेशक
डिन:01972551

.....आवेदक कम्पनी एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंणी को सक्षम बनाने के लिए 22 मार्च, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एंसायरिशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंणी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र, कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंणी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित करने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंणी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय) वी-2 विंग, 23रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

**आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से**
**हस्ता./-**
**मनीशा कुमार गौयल (निदेशक)**
**DIN: 08594881**

**पंजीकृत कार्यालय: 4314/5, चय नता माण्ड, विहार, नई दिल्ली-110035, भारत**

**कृते एवं के लिए**

**कॉर्पोरेशन-पन्-जू टीेलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**मनोज कुमार गौयल, निदेशक**
**तिथि: 22.03.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

कृते एवं के लिए

**कॉर्पोरेशन-पन्-जू टीेलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**
**हस्ता./-**
**मनोज कुमार गौयल, निदेशक**
**तिथि: 22.03.2021**
**स्थान: नई दिल्ली**

**पंजीकृत कार्यालय: 4314/5, चय नता माण्ड, विहार, नई दिल्ली-110035, भारत**

**प्ररुप संख्या यूआरसी-2**

**अधिनियम के अन्वयण XXI के भाग 1) के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन**

**[कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 374(क) और कंणी (रिस्ट्रिक्चराप के लिए प्राक्कित) निगम, 2014 के निगम 4 (1) के अनुसार में]**

1. सूचना दी जाती है कि कंणी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसार में रजिस्ट्रार, हरियाणा को एक आवेदन दिनांक 02 के बाद, जिनहन दिनांक दिनों की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, को “**सैकेड ग्रेट डरूट एक्सप्री (एलएलसीआइएन- AAE-1578)**” एक एलएलसी को कंणी अधिनियम 2013 के अन्वयण XXI के भाग 1 के अर्पण रेवेरों द्वारा सीमित कंणी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

2. कंणी में मून ट्रेडिंग इस प्रकार है:

“**पब्लिक, शैक्षिक और पब्लिक जेवनेरी के लिए फिक्टेड डूर ऑपरेटरी के रूप में व्यवसाय को बढ़ना देना, संशोधित करना, संभालना, व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना, स्वयं करना, संचालित करना, सहभागी बनाना, प्रोत्साहित करना और व्यवसाय प्रदान करना, धैनिक सेवा सेवा ऑपरेटर, डूर ऑपरेटर, डूरिण एजेंट, धैनिक बुकिंग एजेंट, सेक्टर डिष्ट, कूलिंग एजेंट, एलएलसी डिष्ट बुकिंग एजेंट, कैरियर सेवा एजेंट, कैरियर सेवा एजेंट, सम्भलन और वेदनेर ऑडि को संचालन के लिए, और अन्य सहायक व्यवसाय।**

3. प्रस्तावित कंणी के प्राचय संगम और अनुद्घेष्ट जापन की प्राविणियता का निरिणयण **101, डीवी मेगा मील डीएलएलके बेन-1, गुडगांव, -122002** स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।

4. सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो यह व्यक्ति को अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इस्क्रॉफ दिने के भीतर रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआईएन), भारतीय कॉर्पोरेंट कार्यालय में किया जा सकता है।

5. सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो यह व्यक्ति को अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इस्क्रॉफ दिने के भीतर रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआईएन), भारतीय कॉर्पोरेंट कार्यालय में किया जा सकता है।

**आवेदकों के नाम**
**हस्ता./-**
**हस्ता./-**
**मनीशा कुमार गौयल (निदेशक)**
**DIN: 08594881**

### लुनिया

## रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंचे

# बाइडेन प्रशासन का मुकाबला करने के लिए रूस-चीन की कोशिशें तेज

बेजिंग, 22 मार्च (भाषा)।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपने चीनी समकक्ष चांग घी के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को चीन पहुंचे। दोनों देशों ने मानवाधिकार हनन सहित कई मुद्दों पर उनके खिलाफ सख्त नीतियां अपनाने की बाइडेन प्रशासन की योजना का मुकाबला करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों तेज कर दी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर रूसी विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनफिंग ने यहां प्रेस वार्ता में बताया कि लावरोव (71) सोमवार और मंगलवार को वांग से वार्ता करेंगे। हालांकि, हुआ ने इस

### म्यांमा के अधिकारियों पर इ्यू लगाएगा पाबंदी

ब्रसेल्स, 22 मार्च (एपी)।

यूरोपीय संघ (इ्यू) की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बॉरिल ने सोमवार को कहा कि म्यांमा में हुए सैन्य तख्तापलट और इसका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हिंसक बल प्रयोग में संतुलसता के आरोपी म्यांमा के 11 अधिकारियों पर इ्यू प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले बॉरिल ने संवाददाताओं से कहा, ‘तख्तापलट और प्रदर्शनकारियों के दमन के जिम्मेदार 11 लोगों पर हम प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं।’

### छात्रों को लेकर चीनी अधिकारियों के संपर्क में : भारतीय दूतावास

बेजिंग, 22 मार्च (भाषा)।

भारतीय दूतावास ने यहां सोमवार को कहा कि वह उन हजारों भारतीय छात्रों की चिंताओं को लेकर चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क में है, जो बेजिंग द्वारा लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों की वजह से अपने वतन में फंस गए हैं और चीन में स्थित विश्वविद्यालयों में वापस नहीं आ पा रहे हैं। चीन में 4.40 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं। इनमें 23,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हैं जिनमें से ज्यादातर भारी शुल्क देकर चीन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना पाबंदियों का हवाला देकर चीन छात्रों को सलाह दे रहा है कि वे अपने देश से ही ऑनलाइन कक्षा लेना जारी रखें। बहरहाल, छात्रों का कहना है कि उनमें से अधिकतर विज्ञान के विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं।